

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2010—माघ 8, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला बड़वानी में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

कार्यालय, तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत, सेंधवा, जिला बड़वानी

झोनल अधिकारियों का पंचायत निर्वाचन द्वितीय प्रशिक्षण, दिनांक 12 जनवरी 2010 उपस्थिति पत्रक

झोन क्र. (1)	झोनल अधिकारी का नाम (2)	पद (3)	कार्यालय (4)	मोबाईल नं. (5)	हस्ताक्षर (6)
1	श्री लॉखनसिंह राजूपत	मु.का.प. अधि., सेंधवा	जनपद पंचायत, सेंधवा		
2	श्री रामचन्द्र मालवीय	विकासखंड शिक्षा, अधिकारी	किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, सेंधवा		
3	श्री ओमप्रकाश वर्मा	सहायक आयुक्त	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त सेंधवा		
4	श्री आर.एस. चौहान	अनुविभागीय अधिकारी	वनमंडल, सेंधवा		
5	श्री काशीराम जाधव	उप मंडलाधिकारी	वनमंडल, सेंधवा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	श्री सुरेश शर्मा	वनक्षेत्रपाल	वन मंडल, सेंधवा		
7	श्री सुधाकर चतुर्वेदी	वनक्षेत्रपाल	वन मंडल, सेंधवा		
8	श्री आर.आर. पाल	उप मंडलाधिकारी	वन मंडल, सेंधवा		
9	श्री एम.एस. सौलकी	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि विभाग		
10	श्री रमेश पांचाल	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशु चिकित्सालय, सेंधवा		
11	श्री अनिल मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी	सिंचाई विभाग, सेंधवा		
12	श्री ए.के. चोकसे	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रा.या.वि., सेंधवा		
13	श्री लोकेन्द्र सोहनी	बी.आर.सी.	जनपद शिक्षा केन्द्र, सेंधवा		
14	श्री के.के. ठाकुर	सहायक यंत्री	रो.गा.यो. जनपद पंचायत, सेंधवा		
15	श्री आर.एस. लश्करी	उपयंत्री	जनपद पंचायत, सेंधवा		